

@shahjahanpurpol

प्रेस नोट – दिनांक 31.01.2021

थाना सिंधौली पुलिस को मिली बड़ी कामयाबी
अवैध असलहा सहित 03 शातिर अभियुक्तों को किया गिरफ्तार,
भारी मात्रा में अवैध असलहा मय कारतूस बरामद ।

श्री.एस आनन्द पुलिस अधीक्षक शाहजहाँपुर के निर्देशानुसार श्री संजीव कुमार वाजपेयी पुलिस अधीक्षक ग्रामीण के पर्यवेक्षण व श्री नवनीत कुमार क्षेत्राधिकारी पुवायां के निर्देशन में अवैध असलहा रखने व असलहा दिखाकर दवंगई करने वाले अपराधियों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान में थाना सिंधौली पुलिस टीम को बड़ी सफलता प्राप्त हुयी ।

दिनांक 30.01.2021 की रात्रि में थाना सिंधौली पुलिस टीम को मुखबिर द्वारा सूचना दी कि 03 संदिग्ध व्यक्ति अवैध शस्त्र लेकर ग्राम त्रिलोकपुर चौराहे से पैदल-पैदल भायपुर की तरफ जाने वाले रास्ते पर कहीं जा रहे हैं । सूचना पर विश्वास करके ग्राम त्रिलोकपुर चौराहा भायपुर जाने वाले रास्ते पर घेराबन्दी कर तीन व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया । तथा अभियुक्तों के कब्जे से भारी मात्रा में अवैध असलहा बरामद किया गया ।

पूछताछ में एक अभियुक्त ने अपना नाम महिपाल पुत्र श्री हंसराम यादव निवासी ग्राम भायपुर थाना सिंधौली जनपद शाहजहाँपुर बताया जिसके कब्जे से एक अवैध देशी बन्दूक 12 बोर मय 18 जिन्दा कारतूस 12 बोर बरामद किये गये । दूसरे ने अपना नाम सियाराम पुत्र श्री महादेव लुहार निवासी ग्राम भायपुर थाना सिंधौली जनपद शाहजहाँपुर बताया जिसके कब्जे से एक अदद तमन्चा नाजायज 315 बोर मय 02 जिन्दा कारतूस 315 बोर बरामद किये गये । तथा तीसरे ने अपना नाम विपुल पुत्र श्री जंग बहादुर मिश्रा निवासी ग्राम ककरौआ थाना सिंधौली जनपद शाहजहाँपुर बताया जिसके कब्जे से एक अदद चाकू नाजायज बरामद हुआ । गिरफ्तार शुदा अभियुक्तगण के विरुद्ध थाना मु0अ0स0 35/21 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट व मु0अ0सं0 36/21 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट व 37/21 धारा 4/25 आर्म्स एक्ट पंजीकृत कर अभियुक्तगण को जेल भेजा गया है ।

अभियुक्तों का विवरण:-

- 1- महिपाल पुत्र श्री हंसराम यादव निवासी ग्राम भायपुर थाना सिंधौली जनपद शाहजहाँपुर
- 2- सियाराम पुत्र श्री महादेव लुहार निवासी ग्राम भायपुर थाना सिंधौली जनपद शाहजहाँपुर
- 3- विपुल पुत्र श्री जंग बहादुर मिश्रा निवासी ग्राम ककरौआ थाना सिंधौली जनपद शाहजहाँपुर

बरामदगी का विवरण:-

- 1- 01 अवैध बन्दूक मय 18 कारतूस 12 बोर
- 2- 01 अदद तमन्चा 315 बोर मय 02 अदद जिन्दा कारतूस नाजायज
- 3- 01 अदद चाकू

गिरफ्तार करने वाली पुलिस पार्टी का नाम-

- 1-प्रभारी निरीक्षक जगनारायण पाण्डेय थाना सिंधौली जनपद शाहजहाँपुर
- 2-उ0नि0 भारत सिंह थाना सिंधौली जनपद शाहजहाँपुर
- 3-हे0का0 हबीब खां थाना सिंधौली जनपद शाहजहाँपुर
- 4-का0 1889 लवकेश कुमार थाना सिंधौली जनपद शाहजहाँपुर
- 5-का0 2191 शम्मीपाल थाना सिंधौली जनपद शाहजहाँपुर